

जन सम्पर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

14 सितम्बर, 2018

हिंदी दिवस के अवसर पर जामिया में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन:

हिंदी दिवस के अवसर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पत्र-लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जामिया के कुलसचिव श्री.ए.पी. सिद्दीक्री(आईपीएस) ने हिंदी दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसके महत्त्व को रेखांकित किया और कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को सुझाव दिया ताकि विश्वविद्यालय में भारत सरकार के राजभाषा नीति-नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जामिया के हिंदी अधिकारी डॉ. राजेश कुमार 'मांझी' ने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह का हिंदी दिवस पर लिखित संदेश सभागार में सभी कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत किया वहीं दूसरी ओर इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने में डॉ यशपाल, श्री नदीम अख्तर और आदिल अली ने अपना अथक योगदान दिया और जामिया के विभिन्न कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया।

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा 12 सितंबर, 2018 को बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन प्रा.लि. के सहयोग से 'भाषा उत्सव' का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के विषय विशेषज्ञ श्री बालेन्दु शर्मा दाधीच, निदेशक-स्थानीयकरण ने भाषा प्रौद्योगिकी, मशीन अनुवाद, लैंग्वेज एक्टिवेशन, हिंदी टाइपिंग टूल्स, भाषा टूल्स आदि विषयों की विस्तृत जानकारी दी। इन दोनों कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के अधिक से अधिक छात्रों, कर्मचारियों और अधिकारियों के भाग ने भाग लिया।

अहमद अज़ीम

जन संपर्क अधिकारी-मीडिया समन्वयक

जामिया मिल्लिया इस्लामिया



राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ

कुलसचिव कार्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
द्वारा

हिंदी दिवस

के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में आपका स्वागत है।




Microsoft

के सहयोग से

भाषा उत्सव

हो उत्सव, जब साथ आएँ भाषा और प्रौद्योगिकी



विंडोज, ऑफिस और कृत्रिम मेधा
जैसी भी हो आपकी जरूरत: क्या कुछ नहीं है हिंदी में!

दिनांक: 12.09.2018

प्रातः 09:30 बजे

टैगोर हॉल, प्रशासनिक खंड, जामिइ

निबंध-लेखन

एवं

पत्र-लेखन

प्रतियोगिता

दिनांक: 14.09.2018

प्रातः 10:00 बजे

मीर अनीस हॉल,
प्रशासनिक खंड, जामिइ



